

प्रेस नोट दिनांक-07.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये विषेश अभियान में चित्रकूट पुलिस ने 09 वांछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 42/2011 धारा 308/326/504 भा0द0वि0 से संबंधित वारंटी अभियुक्त रामकैलाश पुत्र लुल्ला कोल निवासी गजरिया हरदी कला थाना बरगढ़ चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(ii). उ0नि0 श्री रितेश कुमार गुप्ता थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 20/2015 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त श्रीकृष्णा पुत्र देवनारायण निवासी खोडियन का पुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(iii). उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 46/19 धारा 8/20एनडीपीएस एक्ट वारंटी अभियुक्त 1. लाला पुत्र मुगलू निवासी झरी फाटक थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0सं0 19/16 धारा 02/03 गैंगेस्टर एक्ट के वारण्टी अभियुक्त 2. रामकुशल पुत्र मेवालाल निवासी मुरकटा थाना मानिकपुर को गिफ्तार किया गया।

(iv). वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 09/21 धारा 63 कॉपीराईट एक्ट के वांछित अभियुक्त केसरी ट्रेडर्स प्रोडक्टर विकास चन्द्र पुत्र अयोध्या प्रसाद 2. जयवासुदेव हार्डवेयर प्रोडक्टर सूरजमिश्रा पुत्र जानकीशरण निवासीगण सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिफ्तार किया गया ।

(v). उ0नि0 श्री हरीसिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 617/2020 धारा 363/376 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त आशीष पुत्र चुन्नू वर्मा निवासी भैरोंपागा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(vi). श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 18/16 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रमेश पुत्र मोहनलाल यादव निवासी छोटी बिलहरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(vii). उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 148/12 धारा 452/323 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मनोज पुत्र चुन्नीलाल निवासी लालता रोड मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया ।

(2). आज दिनांक 07/02/2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री घनश्याम पाण्डेय प्रभारी यातायात द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी चित्रकूट में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के तहत 04 पहिया बड़े भार वाहन, 03 पहिया चालकों को एकत्र कर सभी का नेत्र परीक्षण तथा अन्य महत्वपूर्ण जांचें कराई गई साथ ही साथ सभी चालकों को यातायात नियमों के संबंध में विधिवत जानकारी प्रदान की गयी। भारी वाहन चालकों एवं चार पहिया वाहन चालकों को शराब के नशे में तथा नींद में वाहन न चलाने हेतु प्रेरित किया गया। इस बात से भी अवगत कराया गया कि तेज रफ्तार में वाहन ना चलाएं तथा प्रतिबंधित जगह पर वाहनों को ना खड़ा करें चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर चलने तथा मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट लगाकर चलने हेतु प्रेरित किया गया तथा सभी चालकों को निर्देशित किया गया कि 6 माह के अंतराल में अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच अवश्य करा लें आरोग्य मेले में सभी परिवहन तथा यातायात के पुलिसकर्मियों ने भी अपने स्वास्थ्य संबंधी जांचें कराएं तथा सभी उपस्थित चालकों को

यातायात के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न नियमों से संबंधित शपथ भी दिलाई गई। उक्त कार्यक्रम में पीटीओ श्री वीरेंद्र राजभर तथा पीटीओ श्री संतोष तिवारी तथा चिकित्सा से संबंधित श्री सद्गुरु जानकी कुंड सेवा संघ चित्रकूट के डॉक्टर सुशील पांडे डॉ राजकुमार चतुर्वेदी नेत्र परीक्षण अधिकारी एवं एच एल पांडे स्वास्थ्य परीक्षक जयकरण यादव पैथोलॉजी गणेश बाबू विश्वकर्मा फार्मासिस्ट तथा स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी उपस्थित रहे ।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 07.02.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा ग्राम पहाड़ी में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुन्नी चौराहा धुसमैदान तरौहा में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा बन्धी में, एंटी रोमियो टीम राजापुर द्वारा बस स्टैण्ड,वाजपेयी तिराहा व खटवारा में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा तरगुआ पतेरी व विनोबा नगर मे, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ व बस स्टैण्ड, आनन्दी माता मन्दिर,महिला घाट में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक क्रिया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया ।

एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।